

## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

### प्रेस रिलीज

27 जनवरी, 2017

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, श्री शशि कान्त शर्मा ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, श्री एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की

श्री शशि कान्त शर्मा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 26 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने महासचिव को संयुक्त राष्ट्र में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने तथा उसमें वृद्धि सुनिश्चित करने में लेखापरीक्षक बोर्ड द्वारा निरंतर सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने महासचिव को लेखापरीक्षक बोर्ड की पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों तथा वर्तमान वर्ष में निर्धारित मुख्य लेखापरीक्षा केंद्रबिन्दुओं से अवगत कराया।



श्री शशि कान्त शर्मा ने श्री गुटरेस को बताया कि लेखापरीक्षक बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संस्थाओं में विशिष्ट विषय के रूप में सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। श्री गुटरेस ने संयुक्त राष्ट्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने में बोर्ड द्वारा किये गये कार्य की सराहना की और लेखापरीक्षक बोर्ड को अपना पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया।

अपने दौरे के दौरान, श्री शर्मा ने महासभा की प्रशासनिक एवं बजटीय समिति (पाँचवी समिति के रूप में लोकप्रिय) की अध्यक्ष, **सुश्री इंगा रॉंडा किंग** और प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, **श्री कार्लोस जी. रूईज़ मैस्सी** से भी मुलाकात की। ये दोनों समितियाँ संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की महत्वपूर्ण निरीक्षण निकाय हैं, जो लेखापरीक्षक बोर्ड के कार्य की विवेचना करती हैं तथा महासभा को कार्रवाई करने की सिफारिश करती हैं।

---